



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3117]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2016/ पौष 9, 1938

No. 3117]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2016/PAUSA 9, 1938

गृह मंत्रालय

(आन्तरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2016

**का.आ. 4246(अ).**—जबकि, दिनांक 09 जून, 2016 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 09 जून, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 2053(अ) के तहत जगदलपुर में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री संजीव कुमार तमक को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ अधिसूचित विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था;

और जबकि, श्री संजीव कुमार तमक, जिन्हें उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने हेतु न्यायाधीश के रूप में इस प्रकार नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4219(अ) के तहत प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार छत्तीसगढ़ के सिविल डिस्ट्रिक्ट उत्तर बस्तर कांकेर, जगदलपुर, दक्षिण बस्तर (दन्तेवाड़ा) स्थित बस्तर, तथा कोंडागांव तक था;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 09 जून, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2053(अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर श्रीमती प्रिसिल्ला पॉल होरो, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर को, एतद्वारा, उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2016

**S.O. 4246E).**—Whereas, vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 2053(E), dated the 9<sup>th</sup> June, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 9<sup>th</sup> June, 2016, Shri Sanjeev Kumar Tamak, 1<sup>st</sup> Additional Sessions Judge at Jagdalpur was appointed as the Judge to preside over the Special Court notified for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008);

And whereas, Shri Sanjeev Kumar Tamak who was so appointed as Judge to preside over the said Special Court has been transferred;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008, the Central Government vide notification number 4219(E), dated the 29th December, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 29th December, 2016, notified the Court of 1<sup>st</sup> Additional Sessions Judge at Jagdalpur as Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), having jurisdiction over Civil District Uttar Bastar Kanker, Bastar at Jagdalpur, Dakshin Bastar (Dantewada) and Kondagaon of Chhattisgarh for the trial of Scheduled Offences;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008, and in supersession of the notification number S.O. 2053(E), dated the 9<sup>th</sup> June, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendations of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh, hereby appoints Shrimati Prisilla Paul Horo, 1<sup>st</sup> Additional Sessions Judge, Jagdalpur as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS-IV]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.